



Long-Term Care Home Update

Community Newsletter



जनवरी 2022

जनवरी में निर्माण गतिविधियां

हमें पढ़ने वालों और पूरे Durham क्षेत्र को शुभ 2022! Ajax Pickering Hospital के बगल में फिलहाल बन रहे नए दीर्घ-कालिक देखभाल होम के लिए इस साल में भी उत्साहपूर्ण पड़ाव आने जारी रहेंगे। हम इन महत्वपूर्ण घटनाओं को अपने समुदाय के साथ साझा करने के लिए उत्सुक हैं, जिसकी शुरुआत हम पिछले महीने हुई प्रगति के साथ करते हैं।

होम के बाहर, निर्माण स्थल को घेरने वाली बाड़ (फेंस) को हटा दिया गया। Clements Road पर रोकी गई गली को खोल दिया गया है, हालांकि चूंकि नए पार्किंग गराज का निर्माण अभी जारी है, इसलिए Harwood Avenue पर आधी गली अभी भी बंद रहेगी। अगले कुछ हफ्तों के दौरान, बाहरी गतिविधियों में मुख्य रूप से पार्किंग गराज पर ही ध्यान केंद्रित रहेगा। ढांचे पर काम करने के लिए ज़रूरी क्रेन इस महीने लगा दी गई है, और पहले से बने हुए तत्वों को पहुंचाने के लिए हम कार्यस्थल पर बहुत से और ट्रकों की आवाजाही की उम्मीद कर रहे हैं।

पूरा हो जाने पर, यह पार्किंग गराज दीर्घ-कालिक देखभाल होम और अस्पताल के मरीजों, के साथ-साथ निवासियों, आगंतुकों, टीम के सदस्यों और परिवारजनों के लिए 500 पार्किंग स्थल उपलब्ध कराएगा।

होम के अंदर, होम के टेरेस पर रेलिंग लग चुकी हैं और होम को पूरा करने के काम तेज़ गति से किए जा रहे हैं। जैसे-जैसे इमारत बन कर पूरी होती जा रही है, वैसे-वैसे Lakeridge Health और PCL Construction की टीमें घर के सभी क्षेत्रों की बारीकी से समीक्षा कर रही हैं - लगाई गई लाइटों से ले कर दरवाजों के कब्जे से फर्श तक - किसी भी कमी का पता लगाने और उसको ठीक करने के लिए। इस से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि इमारत Lakeridge Health की टीम द्वारा भार ग्रहण करने के लिए साफ-सुथरी, बन कर पूरी और तैयार है।

निर्माण के इस अंतिम चरण के दौरान, कार्य-स्थल की सफाई की जाएगी और इससे थोड़ा शोर हो सकता है। हम कार्यस्थल के बिल्कुल पास रहने वाले निवासियों के धीरज और समझ के लिए उनके लगातार आभारी हैं।




नए होम के सामने का प्रवेश द्वार ढके हुए वाँकवे और पार्किंग स्थलों के साथ (3 जनवरी, 2022)

Substantial Performance (ठोस प्रदर्शन) की उम्मीद रखते हैं

निर्माण शुरू होने के केवल 12 महीने बाद ही, Lakeridge Health का दीर्घ-कालिक देखभाल होम एक substantial performance की ओर बढ़ रहा है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि, substantial performance का अर्थ है कि सभी मुख्य निर्माण पूरा हो चुका है और होम Lakeridge Health को सौंपे जाने के लिए तैयार है।

इस सब के बाद, Lakeridge Health की टीम आने वाले महीनों में यह सुनिश्चित करेगी कि यह अत्याधुनिक होम आ कर रहने (मूव-इन) के लिए तैयार है। इसमें इसके 320 भावी निवासियों के लिए होम को आरामदायक जगह बनाने के लिए इंटरनेट का नेटवर्क लगाना, उपकरण, कला और साज सज्जा लगाना और बाकी आखिरी छोटे-मोटे काम पूरे करना शामिल है। हालांकि substantial performance इस दीर्घ-कालिक होम के मुख्य निर्माण के पूरे होने का प्रतीक है, फिर भी हेलीपैड और पार्किंग गराज पर अलग से निर्माण परियोजनाएं जारी रहेंगी।

समय पर इस लक्ष्य तक पहुँच पाना इस इमारत की योजना और निर्माण में शामिल सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। आने वाले हफ्तों में Lakeridge Health अपने साझेदारों, PCL Construction, Infrastructure Ontario, Parkin और G architects, और और प्रांतीय सरकार के साथ इस पड़ाव का जश्न मनाएगा। इस पड़ाव को संभव बनाने वाली अविश्वसनीय प्रगति और साझेदारी की छोटी सी झलक देखने के लिए नीचे दिए गए वीडियो को देखें।



हमसे जुड़े रहें

हम आपको इस सामुदायिक न्यूजलेटर और अपनी वेबसाइट lh.ca के माध्यम से अपनी प्रगति के बारे में ताज़ा जानकारी देना जारी रखेंगे।

यदि किसी भी समय, आपके कोई प्रश्न हों या आपको अधिक जानकारी चाहिए हो तो कृपया [905-576-8711](tel:905-576-8711) एक्सटेंशन 34167 पर कॉल करें या AjaxLTC@lh.ca पर ईमेल करें। आप हमें Twitter और Facebook पर फॉलो भी कर सकते हैं।

बर्फ़ीले तूफ़ान के दौरान एकजुट होना

17 जनवरी को सारे रिकार्ड तोड़ने वाले बर्फ़ीले तूफ़ान के दौरान Ajax में 50 सेन्टीमीटर बर्फ़ पड़ी। इसके चलते, दीर्घ-कालिक देखभाल होम के निर्माण-स्थल के 20 कर्मचारियों ने Ajax Pickering Hospital के पार्किंग स्थल से बर्फ़ हटाने और साफ़ करने में स्वेच्छा से अपना समय दिया। उनके अद्वितीय प्रयासों का धन्यवाद, जिसकी वजह से अस्पताल का स्टाफ़ आवश्यक फ्रन्ट-लाइन देखभाल जारी रख पाया और मरीज़ सुरक्षित तरीके से अस्पताल तक पहुँच पाए।



PCL टीम का एक सदस्य डॉक्टरों के पार्किंग स्थल की बर्फ़ हटाते हुए



मुख्य निर्माण शब्दों की कुंजी

Substantial performance एक निर्माण का पड़ाव है जो मुख्य निर्माण पूरा होने का प्रतीक है। Substantial Performance का प्रमाण पत्र मिलने का अर्थ है कि परियोजना, या परियोजना का कोई अंश, प्रयोग करने के लिए तैयार है और मालिक उस पर कब्ज़ा ले कर उसका उपयोग शुरू कर सकता है।

Deficiency reviews (कमियों की समीक्षा) यह take substantial performance के पहले किया जाता है। कोई भी प्रसाधन या गुणवत्ता के मुद्दे को खोजने और उसको ठीक करने के लिए एक व्यापक समीक्षा की जाती है। कमियों में पेंट में खरोंचें होना, फर्श की फिनिशिंग, छत की टाइलें, लाइटें काम करना, आउटलेट का स्थान वगैरह शामिल हो सकते हैं।